

सेवा में,  
माननीय मुख्यमंत्री,  
उत्तर प्रदेश सरकार,  
लखनऊ.

विषय: आगरा में यमुना पर अंबेडकर पुल के नजदीक दूसरे पुलों के निर्माण हेतु।  
महोदय,

निवेदन है कि आगरा में यमुना पर मौजूद पुलों पर अत्यधिक ट्रैफिक है। काफी लंबे समय से कई चौड़े पुलों की जरूरत महसूस की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने आवश्यकता का उचित अध्ययन कराए बिना अंबेडकर पुल की घोषणा की थी। पुल की योजना अच्छी थी, किंतु पर्याप्त चौड़ाई न होने से कुछ राहत के अलावा समस्या का समाधान संभव नहीं हो सका।

### **1. पुलों के लिए अध्ययन की आवश्यकता**

अब आवश्यकता है कि एक अध्ययन कराया जाए कि आगरा पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए यमुना पर कहां-कहां पुल बनाये जा सकते हैं।

### **2. दो पुल की है अभी जरूरत**

अ. मौजूदा परिस्थितियों में ज्यादा बेहतर होगा कि एत्मादुदौला से वेदांत मंदिर, यमुना किनारा रोड तक एक और पुल बनाया जाए।

ब. दूसरा पुल ताजमहल से पांच सौ मीटर की दूरी पर मेहताब बाग को जोड़ने के लिए बनाया जा सकता है।

ये पुल स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए भी अधिक उत्तम होंगे। इससे पर्यटक सीधे ताजमहल और आगरा किला देखने के अतिरिक्त एत्मादुद्दौला ज्यादा आसानी से आ-जा सकेंगे।

कृपया आगरा एवं पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की स्वीकृति और कार्ययोजना बनाने के आदेश जारी कर आगरा निवासियों को अनुग्रहीत करें।

स्वीकृति की घोषणा की अपेक्षा में।

धन्यवाद एवं आदर सहित।

चक्रेश जैन  
(कोषाध्यक्ष)

के. सी. जैन  
(सचिव)

पूरन डाबर  
(अध्यक्ष)